

प्रेस नोट दिनांक- 16-01-2021

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यावाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी कोतवाली कर्वी तथा उनकी टीम द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने वाले अभियुक्तगणों व डिग्गी तोड़कर चोरी करने वाले 04 अभियुक्तों को अवैध असलहों व 1,25,000/-रुपये नकदी के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की।

प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी कोतवाली कर्वी को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि कुछ बदमाश जिनके द्वारा पूर्व में कोतवाली कर्वी में डिग्गी तोड़कर चोरी की गयी थी यहां से निकलने वाले हैं व उनके पास असलहा होने की भी संभावना है। इस सूचना पर विश्वास करके अमानपुर बेड़ी पुलिया में जैसे ही प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी अपनी टीम के साथ पहुंचे लगभग समय रात्रि 01.45 दिनांक 16.01.2021 को अभियुक्तों द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर किया गया, जिससे पुलिस टीम बाल बाल बच गयी तथा चारों अभियुक्तों को हिकमत अमली से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगणों की जामातलाशी लेने पर मोटरसाइकिल सुपर स्पलेन्डर UP 43 AF 1908 चला रहे व्यक्ति ने अपना नाम 1. संतेलाल बरवार पुत्र रामनरेश निवासी बल्दू पुरवा बनगाई थाना धनेपुर, जनपद गोण्डा बताया जिसके कब्जे से कुल 28 हजार रुपये बरामद हुआ। इसके पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम 2. ओमप्रकाश वर्मा पुत्र निबरे उर्फ रामतेज निवासी बल्दू पुरवा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा बताया इसके पास से एक अदद तमंचा 315 बोर बरामद हुआ, जिसकी नाल को खोलकर देखा तो एक खोखा कारतूस फसी है तथा उसके पास से कुल 47 हजार रूपया बरामद हुआ। दूसरी मो0सा0 UP 51 AV-3696 सुपर स्पेलेन्डर चला रहे व्यक्ति ने अपना नाम 3. फूलचन्द्र उर्फ किल्लू वर्मा पुत्र निबरे उर्फ रामतेज निवासी बल्दू पुरवा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा बताया जामातलाशी से इसके पास से कुल 25 हजार रूपया बरामद हुआ। पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम 4. विनोद कुमार वर्मा पुत्र धिरऊ नि0 छजवा थाना मोतीगंज ,गोण्डा बताया इसके पास से एक अदद तमंचा 315 बोर व एक खोखा कारतूस तथा 25 हजार रूपया बरामद हुआ। बरामद पैसों के सम्बन्ध में गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों से कडाई से पूछताछ की गयी तो बताया कि हम लोगो ने ये पैसा दिनांक 13-01-2021 को कर्वी में इलाहाबाद बैंक के पास से एक मो0सा0 की डिग्गी से निकाले थे जिसमें कुल एक लाख पांच हजार रूपये मिले थे। जिसमें ओमप्रकाश ने 35 हजार , संतेलाल ने 20 हजार , फूलचन्द्र ने 25 हजार व विनोद ने 25 हजार बांटा था। ओमप्रकाश व संतेलाल ने दिनांक 07-01-2021 को मालीपुर रोड निकट शहजादपुर अकबरपुर , अम्बेडकर नगर से सफेद अपाचे मो0सा0 से मोटरसाइकिल से जा रहे दो व्यक्तियों से एक काले रंग का बैग छीनकर भागे थे जिसमें दो लाख रूपये थे। उसमें से 8 हजार रूपया संतेलाल और 12 हजार ओमप्रकाश के पास बचा है। शेष पैसे खर्च हो गये। सफेद अपाचे मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में पूछने पर बताया कि दिनांक 07.07.2020 को बिन्ध्यवासिनी पार्क मोहदीपुर गोरखपुर से चोरी किये थे जिसको हम लोग अकबरपुर में घटना करने के बाद बीच रास्ते तेल खत्म हो जाने के कारण छोड़कर चले गये थे। विनोद ने कडाई से पूछताछ पर बताया कि लगभग तीन माह पहले मैंने बखशीश कुमार पुत्र शीतला प्रसाद नि0 खरहरी थाना वजीरगंज गोण्डा व ओमप्रकाश वर्मा व फूलचन्द्र उर्फ किल्लू पुत्रगण निबरे उर्फ रामतेज नि0 बल्दूपुर वा थाना धानेपुर गोण्डा के साथ मिलकर राजापुर चित्रकूट से एक मोटरसाइकिल की डिग्गी से 49000/- रूपये चोरी किये थे। जो अब खर्च हो चुके है। कर्वी से सम्बन्धित मु0अ0सं0 -13/21 धारा 379 IPC है जिसमें एक लाख पांच हजार रूपये डिग्गी तोड़कर चोरी किये थे, जिसमें धारा 411 IPC की बढोतरी की गयी। शेष बरामदगी के सम्बन्ध में सम्बन्धित थानो को सूचना दी जायेगा। उपरोक्त बरामदगी एवं पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली कर्वी में गिरफ्तारशुदा चारों अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0 17/21 धारा 307 भा0द0वि0 व 12/14 डी0ए0 एक्ट पंजीकृत किया गया तथा अवैध शस्त्र बरामदगी के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 18/21 धारा 3/25 आयुध अधि0 बनाम ओमप्रकाश वर्मा उपरोक्त व मु0अ0सं0 19/21 धारा 3/25 आयुध अधि0 बनाम विनोद कुमार वर्मा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

बरामदगी-

1. एक लाख पच्चीस हजार रूपया (चोरी के)
2. 02 अदद तमंचा 315 बोर व 02 खोखा कारतूस
3. 02 अदद मोटरसाइकिल

गिरफ्तार/बरामदगी करने वाली टीम-

1. श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी
2. उ0नि0 श्री आनन्द कुमार मिश्र
3. चौकी प्रभारी शिवरामपुर श्री अजीत प्रताप सिंह
4. उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार मौर्य
5. उ0नि0 श्री अजय कुमार यादव
6. उ0नि0 श्री अमित कुमार चौहान
7. उ0नि0 श्री शिवकुमार यादव
8. हे0का0 शिवनरेश
9. का0 सर्वेश मौर्य
10. का0 नन्दलाल

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यावही के क्रम में श्री अनिल कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक राजापुर के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री दीपक कुमार यादव तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त 1. सत्यप्रकाश जायसवाल पुत्र बट्टी प्रसाद निवासी सराय तलैया थाना राजापुर 2. अरुण कुमार पुत्र किशोरीलाल निवासी भरतपुरी थाना कोतवाली कर्वी 3. लाल मोहम्मद पुत्र मोहम्मद बक्स निवासी पश्चिम नाका कस्बा व थाना राजापुर 4. अखिलेश कुमार सोनकर पुत्र पीताम्बरलाल 5. शीतल प्रसाद पुत्र गोपी प्रसाद 6. कमल सोनकर पुत्र बाबूलाल निवासीगण तुलसी इण्टर कालेज राजापुर 07. कमलेश कुमार गुप्ता पुत्र दुर्गा प्रसाद निवासी पश्चिम नाका कस्बा व थाना राजापुर जनपद चित्रकूट ताश के पत्तों में हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुये गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से मालफड़ 4035/- रुपये, जामातलाशी 1220/- रुपये 52 अदद ताश के पत्ते बरामद किये गये। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 13 जुआ अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

1. मालफड़ 4035/- रुपये,
2. जामातलाशी 1220/- रुपये
3. 52 अदद ताश के पत्ते

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री दीपक कुमार यादव थाना राजापुर
2. उनि0 श्री रविसिंह
3. आरक्षी अजीत कुमार
4. आरक्षी विनोद कुमार
5. आरक्षी अखिलेश कुमार

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वांछिक/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चालये जा रहे अभियान के क्रम में श्री सुभाषचन्द्र चौरसिया प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 113/2020 धारा 364/302/201/429 भादवि0 के वांछित अभियुक्त नत्थू पुत्र रामखिलावन यादव निवासी कर्का पडरिया थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. श्री सुभाषचन्द्र चौरसिया प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर
2. वरि0उ0नि0 श्री दिनेश कुमार सिंह
3. आरक्षी रामजी साहू
4. आरक्षी दिनेश यादव

(4). आज दिनांक 16.01.2021 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल द्वारा पुलिस कार्यालय स्थित शाखा रिट सेल/सोशल मीडिया सेल/सीसीटीएनएस/एलआईयू/महिला सेल का वार्षिक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान महोदय द्वारा रिट सेल में निरीक्षण फाइल/निरीक्षण रजिस्टर का अवलोकन किया गया जिसमें निर्देशित किया गया कि आकस्मिक निरीक्षण किसी भी अधिकारी द्वारा किया जाये तो टिप्पणी हस्तलिखित अंकित की जाये। शाखा में अनावश्यक व कंडम सामान को डिस्पोज किया जाये। निरीक्षण में दिये गये निर्देशों का अनुपालन न किये जाने की स्थिति में कार्यवाही की जाये। प्रत्येक कार्यालय में कुर्सी व टेबल में भिन्नता न पायी जाये सभी एक समान हों।

सोशल मीडिया सेल का निरीक्षण कर साफ-सफाई व अनावश्यक कंडम सामान के निष्प्रोज्य हेतु निर्देशित किया गया। विगत में हुये निरीक्षणों की अनुपालन आख्या का उल्लेख निरीक्षण रजिस्टर में किया जाये व सोशल मीडिया सेल में उपलब्ध उपकरणों व सामान का जीपी लिस्ट में इन्द्राज किया जाये।

सीसीटीएनएस कार्यालय में निरीक्षण के दौरान आनलाइन प्राप्त हो रहे चरित्र अनुरोध/पीएम रिपोर्ट के डिफाल्टर होने की स्थिति का कारण पूंछा गया। पिछले एक माह में प्राप्त हुये चरित्र अनुरोध सत्यापन की विवरण आनलाइन देखा गया। जिन थानों पर आनलाइन सत्यापन डिफाल्टर हैं उन थानों से लम्बित डिफाल्टर होने की स्थिति में लम्बित का कारण पूंछने हेतु निर्देशित किया गया। थानों पर उपलब्ध जनरेटर व कम्प्यूटर जो अक्रियाशील हैं को सही कराने हेतु निर्देशित किया गया व थानों पर कार्यरत कम्प्यूटर आपरेटर की जिम्मेदारी तय करने हेतु निर्देशित किया गया।

अभिसूचना इकाई(एलआईयू) में निरीक्षण के दौरान प्रभारी एलआईयू से एलआईयू शाखा में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या व नियतन का विवरण पूंछा गया। जो स्टाफ कार्यालय में उपस्थित नहीं था उनकी जानकारी ली गयी। एलआईयू प्रभारी को निर्देशित किया गया कि किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन/अवैध गतिविधियों के सम्बन्ध में पहले से सूचना संकलित कर उपलब्ध कराया जाये। चुनाव के दृष्टिगत अवैध गतिविधियों की सूचना संकलित करने हेतु निर्देशित किया गया। बीट सूचना रजिस्टर मेन्टेन कर अद्यवाधिक करने हेतु निर्देशित किया गया। जीपी लिस्ट का अवलोकन किया गया।

महिला सेल में निरीक्षण के दौरान महिला हेल्पडेस्क में कर्मियों द्वारा की जा रही ड्यूटी के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि थानों पर स्थापित महिला हेल्पडेस्क में जो महिलायें अपनी शिकायते दर्ज कराती हैं उनसे बात कर जानकारी करें की उनकी समस्या का निस्तारण हुआ है अथवा नहीं। महिला हेल्पडेस्क में रजिस्टर में गोश्वारा बनाये जाने हेतु निर्देशित किया गया तथा रजिस्टर में यह भी अंकित किया जाये कि महिला शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र किस दिनांक को दिया गया व निस्तारण की तिथि को भी अंकित

किया जाये। महिला अपराध रजिस्टर का अवलोकन कर निर्देशित किया गया कि थानावार महिला अपराधों का गोश्वारा बनायें व गोश्वारा में पिछले 03 वर्षों का आकंडा अवश्य अंकित किया जाये।

महोदय द्वारा प्रतिसार निरीक्षक को निर्देशित किया गया कि शाखाओं में उपलब्ध कराये गये उपकरणों की जीपी0 लिस्ट में इन्द्राज कराना सुनिश्चित करें व कार्यालय/शाखाओं में कुर्सी व टेबल एक समान उपलब्ध करायें। कार्यालय में तम्बाकू/गुटखा खाने वालों को चिन्हित कर अवगत करायें।

इस दौरान प्रभारी मीडिया सेल श्री के. के. मिश्रा, स्टेनो श्री कमलेश कुमार राय, वाचक श्री शिवबदन सिंह, पीआरओ श्री दिनेश सिंह तथा अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(5). आज दिनांक 16.01.2021 को पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार/प्रशिक्षण इकाई में 09 दिवसीय यूपी0 112 के रिफ्रेशर कोर्स के समापन के अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक श्री शैलेन्द्र कुमार राय द्वारा यूपी0 112 प्रभारी श्री राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 30 पुलिस कर्मियों को प्रशस्ति पत्र वितरण किये गये।

(6). 30प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में आज दिनांक 16.01.2021 को एण्टी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा कस्बा मऊ बस स्टैण्ड, इलाहाबाद बैंक, बाजार रोड में, एण्टी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा चकरेही चौराहा, बनकट, नई दुनिया में भ्रमण कर बालिकाओं/महिलाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताया गया।

एण्टी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारे में पूछा गया एवं आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित थाना प्रभारी/एण्टी रोमियो टीम प्रभारी व 30प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया।

